

मेरे निवेश कैसे सुरक्षित रखा जाते हैं?



यदि मेरा वित्तीय संस्थान विफल हो जाता है तो क्या होगा?

कैनेडा डिपॉज़िट इंशोरेंस कॉर्पोरेशन (सीडीआईसी) (Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC))

फेल होने की स्थिति में CDIC सदस्य संस्थानों में ग्राहक की जमा राशि का बीमा करता है।

CDIC कवरेज मुफ्त और स्वचालित है। यदि आपकी जमा राशि का बीमा किया गया है, तो फेल होने की स्थिति में CDIC आपको स्वचालित रूप से भुगतान करेगा।

CDIC के बारे में [cdic.ca](https://www.cdic.ca) पर अधिक जानें।



CDIC सदस्य संस्थान कौन हैं?

- बैंक
- फ़ैडरल रूप से नियंत्रित क्रेडिट यूनियन
- लोन और ट्रस्ट कंपनियां
- कोऑपरेटिव क्रेडिट असोसिएशंस एक्ट (Cooperative Credit Associations Act) द्वारा संचालित संस्थाएँ जो डिपॉज़िट लेती हैं



CDIC की कवरेज सीमाएँ क्या हैं?

यदि कोई CDIC सदस्य संस्था विफल हो जाती है, तो प्रत्येक CDIC सदस्य संस्थान में योग्य डिपॉज़िटों को अधिकतम \$100,000 प्रति अलग बीमित श्रेणी में सुरक्षित किया जाता है।

✓ क्या कवर होता है?

- बचत और चैकिंग खाते
- GIC और अन्य टर्म डिपॉज़िट
- विदेशी मुद्रा

✗ क्या कवर नहीं होता है?

- म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बॉन्ड
- एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले फंड
- क्रिप्टोकॉरन्सियाँ (Cryptocurrencies)

कनेडियन इन्वैस्टर प्रोटेक्शन फंड (सीआईपीएफ) (Canadian Investor Protection Fund (CIPF))

CIPF सदस्य संस्थानों के उन ग्राहकों को कवर करता है जिन्हें किसी सदस्य संस्थान के फेल होने के कारण वित्तीय नुकसान हुआ है या हो सकता है।

CIPF कवरेज मुफ्त और स्वचालित है यदि आपका खाता CIPF सदस्य संस्थान के साथ है जिसका उपयोग केवल सेक्युरिटीज़ या कमोडिटी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टों में निवेश के लिए किया जाता है।

CIPF के बारे में cipf.ca पर अधिक जानें।



CIPF सदस्य संस्थान कौन हैं?

एक निवेश डीलर जो आईआईआरओसी (इन्वैस्टमेंट इंडस्ट्री रैगुलेट्री ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ कैंनेडा) (IIROC (Investment Industry Regulatory Organization of Canada)) का सदस्य है।



CIPF की कवरेज सीमाएँ क्या हैं?

किसी व्यक्ति के लिए, CIPF सुरक्षा की सीमाएँ आमतौर पर इस प्रकार हैं:

- सभी सामान्य खातों के लिए \$1 मिलियन सम्मिलित (जैसे नकद खाते, मार्जिन खाते और TFSA's), अतिरिक्त
- सभी पंजीकृत सेवानिवृत्ति खातों (जैसे RRSPs, RRIFs और LIFs) के लिए \$1 मिलियन, अतिरिक्त
- सभी पंजीकृत शिक्षा बचत योजनाओं (RESPs) के लिए \$1 मिलियन सम्मिलित, जहाँ ग्राहक योजना का सब्सक्राइबर है।

✓ क्या कवर होता है?

गुम संपत्ति। यह आपकी ओर से एक CIPF सदस्य फर्म द्वारा रखी गई संपत्ति है जो फर्म के फेल होने के बाद आपके पास वापस नहीं दी जाती है। गुम संपत्ति में शामिल हो सकते हैं:

- नकद
- सिक्योरिटीज़
- फ्यूचरज़
- सैगरेगेटेड बीमा फंड

✗ क्या कवर नहीं होता है?

- इससे होने वाले नुकसान:
 - किसी भी कारण से आपके निवेश के मूल्य में गिरावट
 - अनुपयुक्त निवेश
 - आपके साथ की गई धोखाधड़ी या अन्य गलत बयानियाँ
 - भ्रामक जानकारी जो आपको दी गई थी
 - महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको बताई नहीं गई थी
 - खराब निवेश सलाह
 - आपकी सिक्योरिटी जारी करने वाली कंपनी का फेल या बकाया होना
- आपके द्वारा सीधे तौर पर रखी गई सिक्योरिटीज़ (उदाहरण के लिए, आपके पास एक शेयर प्रमाणपत्र)
- CIPF कवरेज नीति में पहचाने गए अन्य बहिष्करण।

एमएफडीए इन्वैस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन (एमएफडीए आईपीसी) (MFDA Investor Protection Corporation (MFDA IPC))

सदस्य संस्थान के फेल होने की स्थिति में MFDA IPC एक सदस्य संस्थान द्वारा आयोजित ग्राहक संपत्ति की रक्षा करता है।

यदि आपका MFDA सदस्य संस्थान में खाता है तो MFDA IPC कवरेज मुफ्त और स्वचालित है।

MFDA IPC के बारे में mfda.ca पर और जानें।



MFDA सदस्य संस्थान कौन हैं?

म्यूचुअल फंड डीलर जो MFDA (म्यूचुअल फंड डीलर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा (Mutual Fund Dealers Association of Canada)) का सदस्य है



MFDA IPC की कवरेज सीमाएँ क्या हैं?

प्रत्येक ग्राहक के सामान्य और अलग खातों के लिए \$1 मिलियन तक। अधिकांश ग्राहकों के पास कवरेज उद्देश्यों के लिए दो "खाते" होंगे:

- उनके ट्रेडिंग खातों का कुल जोड़ (सामान्य खाता) और
- RRSPs और RIFs (अलग खाता) जैसे उनके पंजीकृत सेवानिवृत्ति खातों का कुल जोड़

✓ क्या कवर होता है?

ऐसी संपत्ति के उदाहरण जो MFDA IPC कवरेज के लिए योग्य हो सकते हैं:

- सिक्योरिटीज़
- नकद
- सैगरेगेटेड फंड

✗ क्या कवर नहीं होता है?

ग्राहक की हानियाँ जो किसी सदस्य फर्म के दिवालिया होने के परिणामस्वरूप नहीं होती हैं जैसे:

- सिक्योरिटीज़ के बदलते बाजार मूल्य से होने वाले नुकसान
- अनुपयुक्त निवेश
- सिक्योरिटीज़ के जारीकर्ता का फेल या बकाया होना

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

GetSmarterAboutMoney.ca

[f GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney) [@smarter_money](https://twitter.com/smarter_money)



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

